

“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001.”



पंजीयन क्रमांक  
“छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015.”

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

( असाधारण )  
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 432 ]

रायपुर, मंगलवार, दिनांक 16 जुलाई 2019—आषाढ़ 25, शक 1941

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग  
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर

नवा रायपुर, अटल नगर दिनांक 12 जुलाई 2019

## अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-18/2019/18.—छ.ग. नगरपालिका अधिनियम 1961 (क्रमांक 37 सन् 1961) की धारा 29 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, नगर पंचायत तुमगांव, जिला-महासमुन्द (छ.ग.) के वार्डों का विस्तार नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार एतद्वारा अवधारित करता है :—

1. तुमगांव नगर पंचायत को 15 वार्डों में विभाजित करता है और अनुसूची में दर्शाये अनुसार ऐसे प्रत्येक वार्ड की सीमा निर्धारित करता है।

02. यह अधिसूचित करता है कि ऐसे प्रत्येक वार्ड से एक पार्षद निर्वाचित किया जायेगा।

### अनुसूची

वार्ड क्र.	वार्ड का नाम
1	डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	स्वामी विवेकानंद वार्ड
3	डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
4	महात्मा गांधी वार्ड
5	सुभाष चन्द्र बोस वार्ड
6	पं. दीनदयाल वार्ड
7	राजीव गांधी वार्ड
8	गुरु घासी दास वार्ड
9	मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड
10	शहीद भगत सिंह वार्ड
11	डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड
12	रानी लक्ष्मी बाई वार्ड
13	इंदिरा गांधी वार्ड
14	पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड
15	शहीद वीर नारायण सिंह वार्ड

### नगर पंचायत तुमगांव के वार्डों की चतुर्सीमा का विवरण

#### वार्ड क्रमांक 01—डॉ. अम्बेडकर वार्ड

- उत्तर में — चमरू पटेल के मकान से गोविन्द साहू के मकान होते हुये डामर प्लांट तक।
- पूर्व में — डामर प्लांट भवन से पान दुकान होते हुये मकसूद टायर शॉप तक।
- दक्षिण में — मकसूद टायर शॉप से लखन डीमर के घर होते हुए चमरू पटेल के मकान तक।
- पश्चिम में — चमरू पटेल का मकान।

#### वार्ड क्रमांक 02—स्वामी विवेकानंद वार्ड

- उत्तर में — निरंजन सिंह के मकान से प्रारंभ होकर डॉ. सोनी दवाखाना होते हुए शासकीय अस्पताल तक।
- पूर्व में — शासकीय अस्पताल से जोगी डेरा घर होते हुए कृष्णा ध्रुव के मकान तक।
- दक्षिण में — कृष्णा ध्रुव के मकान से जयराम सतनामी का मकान होते हुए रामसागर तालाब तक।
- पश्चिम में — रामसागर तालाब से कलिया साहू के मकान होते हुए निरंजन सिंह के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 03—डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड**

1. उत्तर में — नगर पंचायत कार्यालय भवन से राकेश चंद्राकर का मकान होते हुए रघुनाथ शर्मा के मकान तक।
2. पूर्व में — रघुनाथ शर्मा के मकान से सुकालू साहू के मकान होते हुए दाउलाल निर्मलकर के घर तक।
3. दक्षिण में — दाउलाल निर्मलकर के मकान से आगे लेडगा साहू के मकान होते हुए प्रेमलाल निर्मलकर के मकान तक।
4. पश्चिम में — प्रेमलाल निर्मलकर के मकान से तोरण का मकान होते हुए नगर पंचायत भवन तक।

**वार्ड क्रमांक 04—महात्मा गांधी वार्ड**

1. उत्तर में — मुन्ना यादव के मकान से पुलिस स्टेशन होते हुए राजो बाई सतनामी के घर तक।
2. पूर्व में — राजो बाई सतनामी के घर से डबरी होते हुए विष्णु यादव के घर तक।
3. दक्षिण में — विष्णु यादव के मकान से घोंडुल के मकान होते हुए प्रेमलाल धीवर के घर तक।
4. पश्चिम में — प्रेमलाल धीवर के घर से डबरी होते हुए मुन्ना यादव के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 05—सुभाष चंद बोस वार्ड**

1. उत्तर में — एन.एच.6 में प्रारंभ होकर खेत पार करते हुए आर.के.ठाकुर के घर तक।
2. पूर्व में — आर.के.ठाकुर के घर से बाजार होते हुए दउवा टंडन के घर तक।
3. दक्षिण में — दउवा टंडन के घर से सुकालू के मकान होते हुए दुकालु धीवर के घर तक।
4. पश्चिम में — दुकालु धीवर के घर से गोविंदा तालाब होते हुए एन.एच. 6 में नहर तक।

**वार्ड क्रमांक 06—पं. दीनदयाल वार्ड**

1. उत्तर में — संतराम पटेल के घर से धर्मेन्द्र के मकान होते हुए चमरु धीवर के घर तक।
2. पूर्व में — चमरु धीवर के घर से जगत का मकान होते हुए कांशी राम पटेल के घर तक।
3. दक्षिण में — कांशी राम पटेल के मकान से जोईधा पटेल का मकान होते हुए बैगा बाबा तक।
4. पश्चिम में — बैगा बाबा से समारु का घर होते हुए संतराम पटेल के घर तक।

**वार्ड क्रमांक 07—राजीव गांधी वार्ड**

1. उत्तर में — बाबू लाल पटेल के घर से रोशन साहू के मकान होते हुए नंद साहू के घर तक।
2. पूर्व में — नंद साहू का मकान।
3. दक्षिण में — नंद साहू के मकान से गोड़धोवा तालाब तक।
4. पश्चिम में — गोड़धोवा तालाब से राजेन्द्र तिवारी के मकान होते हुए बाबूलाल पटेल के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 08—गुरु घासी दास वार्ड**

1. उत्तर में — फ्रीडम चौक में इकबाल कुरैशी के दुकान होते हुए नंद कुमार जैन के मकान तक।
2. पूर्व में — नंदकुमार जैन के मकान से कपिल का मकान होते हुए भैयाराम साहू के मकान तक।
3. दक्षिण में — भैयाराम साहू के मकान से प्रेम का मकान होते हुए रमेश शर्मा के मकान तक।
4. पश्चिम में — रमेश शर्मा के मकान से फ्रीडम चौक होते हुए इकबाल कुरैशी के दुकान तक।

**वार्ड क्रमांक 09—मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड**

- 1 उत्तर में — रिटायर कृषि विस्तार अधिकारी के मकान से किशोर का मकान होते हुए पुनौतिन यादव के मकान तक।
- 2 पूर्व में — पुनौतिन यादव के मकान से श्याम का मकान होते हुए दिलीप जैन के मकान तक।
- 3 दक्षिण में — दिलीप जैन के मकान से रियाज का मकान होते हुए निसार हुसैन कुरैशी के मकान तक।
- 4 पश्चिम में — निसार हुसैन कुरैशी के मकान से किशोर के मकान होते हुए रिटायर कृषि विस्तार अधिकारी के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 10—शहीद भगत सिंह वार्ड**

1. उत्तर में — प्रेमलाल के मकान से सुखराम के मकान होते हुए गोवर्धन यादव के मकान तक।
2. पूर्व में — गोवर्धन यादव के मकान से लेडगा के मकान होते हुए कुंजबाई निषाद के मकान तक।
3. दक्षिण में — कुंजबाई के मकान से भरत के मकान होते हुए फेरूराम साहू के मकान तक।
4. पश्चिम में — फेरू साहू के मकान से बाबूलाल के मकान होते हुए प्रेमलाल के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 11—डॉ. राममनोहर लोहिया वार्ड**

1. उत्तर में — उमायादव के मकान से प्रेमलाल ढीमर का मकान होते हुए भरत टांडेकर के मकान तक।
2. पूर्व में — भरत टांडेकर के मकान से गोकुल के मकान होते हुए बीरबल साहू के मकान तक।
3. दक्षिण में — बीरबल साहू के मकान से शिवनारायण के मकान होते हुए फीरती साहू के मकान तक।
4. पश्चिम में — फीरती साहू के मकान से भोज साहू के मकान से होते हुए उमा यादव के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 12—रानी लक्ष्मी बाई वार्ड**

1. उत्तर में — दीनु निषाद के मकान से केशव के मकान होते हुए तिजू राम सतनामी के मकान तक।
2. पूर्व में — तिजू राम सतनामी के मकान से रामलाल के घर होते हुए राजकुमार सांवरा के मकान तक।
3. दक्षिण में — राजकुमार सांवरा के मकान से अर्जुन निषाद के मकान होते हुए श्यामू साहू के मकान तक।
4. पश्चिम में — श्यामू साहू के मकान से साखाराम निषाद के मकान होते हुए दीनु निषाद के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 13—इंदिरा गांधी वार्ड**

1. उत्तर में — जवाहर लाल निर्मलकर के मकान से परदेशी के मकान होते हुए राजकुमार धीवर के मकान तक।
2. पूर्व में — राजकुमार धीवर के मकान से जीवनराखन साहू के मकान होते हुए खोरबाहरा यादव के मकान तक।
3. दक्षिण में — खोरबाहरा यादव के मकान से घनश्याम ध्रुव के मकान तक।
4. पश्चिम में — घनश्याम ध्रुव के मकान से राधे का मकान होते हुए जवाहर लाल निर्मलकर के मकान तक।

**वार्ड क्रमांक 14—पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड**

1. उत्तर में — सामुदायिक भवन से दुर्गा चौक होते हुए पिताम्बर निषाद के घर तक।
2. पूर्व में — पिताम्बर निषाद के मकान से हेमकुमार यादव के घर होते हुए मनहरण निर्मलकर के घर तक।
3. दक्षिण में — मनहरण निर्मलकर के मकान से मोहन यादव के घर होते हुए शारदा साहू के घर तक।
4. पश्चिम में — शारदा साहू के घर से कार्तिक राम सेन के दुकान होते हुए सामुदायिक भवन तक।

**वार्ड क्रमांक 15—शहीद वीरनारायण सिंह वार्ड**

1. उत्तर में — खेदू निषाद के घर से मैघनाथ यादव के घर होते हुए राजेन्द्र सायल के घर तक।
2. पूर्व में — राजेन्द्र सायल से शराब (मदिरा) दुकान होते हुए लाल सिंग ध्रुव के घर तक।
3. दक्षिण में — लालसिंग ध्रुव के घर से फिल्टर प्लांट होते हुए चीमा ब्रिक्स तक।
4. पश्चिम में — चीमा ब्रिक्स प्लांट से मुक्तिधाम होते हुए खेदू निषाद के घर तक।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

नवा रायपुर अटल नगर, दिनांक 12 जुलाई 2019

क्रमांक एफ 1-18/2019/18.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 1-18/2019/18 दिनांक 12.07.2019 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
आर. एक्का, उप सचिव.

Nava Raipur Atal Nagar the 12th July 2019

### NOTIFICATION

No. F 1-18/2019/18.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 29 of the Chhattisgarh Municipalities Act, 1961(No. 37 of 1961) the State Government, hereby determine the extent of wards of Nagar Panchayat Tumgaon, Distt. Mahasamund as per Schedule given below :-

01. Divides the Tumgaon Nagar Panchayat into 15 wards and described the limit of all such wards as per Schedule.
02. Notify that one member shall be elected for every ward.

### SCHEDULE

No. of wards	Name of Wards
01	Dr. Ambedkar Ward
02	Swami Vivekanand Ward
03	Dr. Rajendra Prasad Ward
04	Mahatma Gandhi Ward
05	Subhas Chandra Bose Ward
06	Pt. Dindayal Ward
07	Rajeev Gandhi Ward
08	Guru Ghasi Das Ward
09	Maulana Abdul Kalam Ward
10	Shaheed Bhagat Singh Ward
11	Dr. RamManohar Lohiya Ward
12	Rani Laxmi Bai Ward
13	Indira Gandhi Ward
14	Pt. Jawahar Lal Nehru Ward
15	Shaheed Veernarayan Singh Ward

**Description of ward limits of Nagar Panchayat Tumgaon****Ward no. 1-Dr. Ambedkar Ward**

- 1 North - From Chamru Patel's house to Damar Plant via Govind Sahu's house.
- 2 East - From Damar Plantbhawan to Maksud Tyre shop via Pan dukan.
- 3 South - From Maksud Tyre Shop to Chamru patel's house via Lakhan Dhimar's house.
- 4 West - Chamru Patel's house.

**Ward no. 2-Swami Vivekanand Ward**

- 1 North - From Niranjana Singh's house to Government Hospital via Dr. Soni Dawakhana.
- 2 East - From Government Hospital to Krishna Dhruw's house via Jogi Dera.
- 3 South - From Krishna Dhruw's house to Ramsagar Talab via Jairam Satnami's house.
- 4 West - From Ramsagar Talab to Niranjana Singh's house via Kaliya Sahu's house.

**Ward no. 3-Dr. Rajendra Prasad Ward**

- 1 North - From Nagar Panchayat office building to Raghunath Sharma's house via Rakesh Chandrakar's house.
- 2 East - From Raghunath Sharma's house to Daulal Nirmalkar's house via Sukalu Sahu's house.
- 3 South - From Daulal Nirmalkar's house to Premlal Nirmalkar's house via Ledga Sahu's house.
- 4 West - From Premlal Nirmalkar's house to Nagar Panchayat office building via Toran's house.

**Ward no. 4-Mahatma Gandhi Ward**

- 1 North - From Munna Yadav's house to Rajobai Satnami's house via Police station.
- 2 East - From Rajobai Satnami's house to Vishnu Yadav's house via Dabri.
- 3 South - From Vishnu Yadav's house to Premlal Dhivar's house via Ghondul's house.
- 4 West - From Premlal Dhiver's house to Munna Yadav's house via Dabri.

**Ward no. 5-Subhas Chandra Bose Ward**

- 1 North - Starting From N.H. 6 and crossing field up to R.K. thakur's house .
- 2 East - From R.K. thakur's house to Dauva Tandan's house via Market.
- 3 South - From Dauva Tandan's house to Dukalu Dhiver's house via Sukalu's house.
- 4 West - From Dukalu Dhiver's house to canal in N.H. 6 via Govinda Talab.

**Ward no. 6-Pt. Dindayal Ward**

- 1 North - From Santram Patel's house to Chamru dhivar's house via Dharmendra's house.  
 2 East - From Chamru Dhivar's house to Kanshi Ram Patel's house via Jagat's house.  
 3 South - From Kanshi ram Patel's house to Baiga baba via Joidha Patel's house.  
 4 West- From Baiga baba to Santram Patel's house via Samaru's house.

**Ward no. 7-Rajeev Gandhi Ward**

- 1 North - From Babulal Patel's house to Nand sahu's house via Roshan Sahu's house.  
 2 East - Nand sahu's house.  
 3 South - From Nand sahu's house to Goddhova talab.  
 4 West- From Goddhova talab to Babul lal patel's house via Rajendra Tiwari's house.

**Ward no. 8-Guru Ghasi Das Ward**

- 1 North - From Ikbal qureshi's shop in Freedom chowk to Nand Kumar jain's house.  
 2 East- From Nand Kumar Jain's house to Bhaiya Ram Sahu's house via Kapil's house.  
 3 South - From Bhaiya Ram Sahu's house to Ramesh Sharma's house via Prem's house.  
 4 West- From Ramesh Sharma's house to Ikbal Qureshi shop via Freedom chowk.

**Ward no. 9-Maulana Abdul Kalam Ward**

- 1 North - From Retired Krishi vistar Adhikari's house to Punotin Yadav's house via Kishor's house.  
 2 East - From Punotin Yadav's house to Dilip Jain's house via Shyam's house  
 3 South - From Dilip Jain's house to Nishar Hussain Qureshi's house via Riyaz's house.  
 4 West- From Nishar Hussian Qureshi's house to Retired Krishi Vistar Adhikari's ouse via Kishor's house.

**Ward no. 10-Shaheed Bhagat Singh Ward**

- 1 North - From Premlal's house to Govardhan Yadav's house via Sukhram's house.  
 2 East- From Govardhan Yadav's house to Kunjbai Nishad's house via Ledga's house.  
 3 South - From Kunjbai Nishad's house to Feru ram Sahu's house via Bharat's house.  
 4 West- From Feru Sahu's house to Premlal's house via Babu Lal's house.

**Ward no. 11-Dr. RamManohar Lohiya Ward**

- 1 North - From Uma Yadav's house to Bharat Tandekar's house via Premlal Dhimar's house.  
 2 East - From Bharat Tandekar's house to Birbal Sahu's house via Gokul's house.



- 3 South - From Birbal Sahu's house to Firti Sahu's house via Shivnarayan's house.  
 4 West - From Firti Sahu's house to Uma Yadav's house via Bhoj Sahu's house.

**Ward no. 12-Rani Laxmi Bai Ward**

- 1 North - From Dinu Nishad's house to Tijuram Satnami's house via Keshav's house.  
 2 East - From Tijuram Satnami's house to Rajkumar Savra's house via Ramlal's house.  
 3 South - From Rajkumar Savra's house to Syamu Sahu's house via Arjun Nishad's house.  
 4 West - From Syamu Sahu's house to Dinu Nishad's house via Sakharam Nishad's house.

**Ward no. 13-Indira Gandhi Ward**

- 1 North - From Jawahar Lal Nirmalkar's house to Rajkumar Dhivar's house via Pardeshi's house.  
 2 East - From Rajkumar Dhivar's house to Khorbahra Yadav's house via Jivrakhan Sahu's house.  
 3 South - From Khorbahra Yadav's house to Ghansyam Dhruw's house.  
 4 West - From Ghansyam Dhruw's house to Jawahar Lal Nirmalkar's house via Radhe's house.

**Ward no. 14-Pt. Jawhar Lal Nehru Ward**

- 1 North - From Samudayik Bhawan to Pitambar Nishad's house via Durga Chowk.  
 2 East - From Pitambar Nishad's house to Manharan Nirmalkar's house via Hemkumar Yadav's house.  
 3 South - From Manharan Nirmalkar's house to Sharda Sahu's house via Mohan Yadav's house.  
 4 West - From Sharda Sahu's house to Samudayik Bhawan via Kartik Ram sen's house.

**Ward no. 15-Shaheed Veernarayan Singh Ward**

- 1 North - From Khedu Nishad's house to Rajendra Sayal's house via Meghnath Yadav's house.  
 2 East - From Rajendra Sayal's house to Lal Singh Dhruw's house via Sharab Dukan (Wine Shop).  
 3 South - From Lal Singh Dhruw's house to Cheema Bricks via Filter Plant.  
 4 West - From Cheema Bricks Plant to Khedu Nishad's house via Muktidham.

By order & In the name of Governor of Chhattisgarh,  
 R. EKK, Deputy Secretary.